

Sept Exports Rebound, Trade Gap Shrinks

Outbound merchandise shipments grow 0.5% and inbound rise 1.6%; trade deficit narrows to \$20.78 billion

Our Bureau

New Delhi: India's merchandise exports witnessed a rebound in September after two months of contraction on the back of rise in engineering, chemicals, plastics, pharmaceuticals, garments, electronics and other goods.



Merchandise exports grew 0.5% to \$34.58 billion in September while the trade deficit widened to \$20.78 billion from \$20.08 billion a year ago.

Trade deficit narrowed to a five-month low, official data released Wednesday showed. Merchandise exports grew 0.5% to \$34.58 billion in September while the trade deficit widened to \$20.78 billion from \$20.08 billion a year ago.

Exports grew 0.5% to \$34.58 billion in September while the trade deficit widened to \$20.78 billion from \$20.08 billion a year ago.

Imports grew 1.6% to \$55.36 billion in September compared to \$54.49 billion in the year-ago period.

Commerce secretary Sunil Barthwal said that exports grew 0.5% to \$34.58 billion in September while the trade deficit widened to \$20.78 billion from \$20.08 billion a year ago.

Imports grew 1.6% to \$55.36 billion in September compared to \$54.49 billion in the year-ago period.

Exports grew 0.5% to \$34.58 billion in September while the trade deficit widened to \$20.78 billion from \$20.08 billion a year ago.

Imports grew 1.6% to \$55.36 billion in September compared to \$54.49 billion in the year-ago period.

Imports grew 1.6% to \$55.36 billion in September compared to \$54.49 billion in the year-ago period.

Exports grew 0.5% to \$34.58 billion in September while the trade deficit widened to \$20.78 billion from \$20.08 billion a year ago.

Imports grew 1.6% to \$55.36 billion in September compared to \$54.49 billion in the year-ago period.

Exports grew 0.5% to \$34.58 billion in September while the trade deficit widened to \$20.78 billion from \$20.08 billion a year ago.

Imports grew 1.6% to \$55.36 billion in September compared to \$54.49 billion in the year-ago period.

Imports grew 1.6% to \$55.36 billion in September compared to \$54.49 billion in the year-ago period.

Exports grew 0.5% to \$34.58 billion in September while the trade deficit widened to \$20.78 billion from \$20.08 billion a year ago.

Imports grew 1.6% to \$55.36 billion in September compared to \$54.49 billion in the year-ago period.

Exports grew 0.5% to \$34.58 billion in September while the trade deficit widened to \$20.78 billion from \$20.08 billion a year ago.

Imports grew 1.6% to \$55.36 billion in September compared to \$54.49 billion in the year-ago period.

‘It’s Indian Century But we Should Not be Too Complacent’

Must be nimble, flexible and explore multiple opportunities amid rising protectionism

Deepshikha Sikarwar



New Delhi: This is the Indian century, and the country is on the right track, leading economist Jagdish Bhagwati said while cautioning that it should not become complacent.

We (India) now have an opportunity to ensure our views have an impact... In the old days India was left out

On the issue of rising trade protectionism, he said India needs to be nimble, flexible and explore multiple opportunities and that there is nothing called a trustworthy partner in international politics.

I was worried about multiple trade pacts undermining WTO

“India is on the right track, and this is the Indian century,” he told ET on his recent trip to India adding that the country’s Prime Minister Narendra Modi “the country has taken off on the economic front.”

JAGDISH BHAGWATI ECONOMIST

“India is a big player politically and economically,” he said, adding that the world has to take it seriously. “We now have an opportunity to ensure our views have an impact... In the old days India was left out.”

protectionism, many of your trading partners, you have to take that into account but in a way that opens up more possibilities.

However, he cautioned that no one should take India’s rise as a given. “...when it looks to us like the Indian century, we should not become too complacent, because in economics things turn around very rapidly.”

“So don’t trust one partner but trust a group of partners and keep your eyes and ears open because if they are succumbing to their own political concerns and actually shutting off markets,” he suggested. “There’s nothing like a long run, trustworthiness partner and you having flexibility in your system is really the ultimate guarantee.”

Bhagwati knows for his contribution to trade theory, has been a vocal proponent of free trade and economic globalization.

“You have to have the possibility of substitution, supplemental approaches and so on. Because you can rely on anybody...”

Asked if his ‘Spaghetti Bowl’ theory amid rising protectionism due to geopolitical concerns still holds, he said, “It was basically worried about multiple trade agreements undermining the WTO Organization, which is a multilateral institution.”

“If you are worried about instruments, multiple sources, is the way to go. Never trust anyone because there’s nothing like a trustworthy partner when it comes to international politics and international politics based on international economics,” Bhagwati added.

Bhagwati coined the term spaghetti bowl in a 1995 paper to describe the complexity of free trade agreements and their negative impact on trade relations.

“India is a big country and also successful and it can actually lose its muscle power to be able to have its way, he said. “Before we could only be at the receiving end. Now it’s not so,” he noted.

“It’s not as bad as people make out in the newspapers and in politics. But it is definitely a situation where many markets are not as robust as they used to be. So, we have to work out an alternative,” urging a need to think about the direction.

“India has a big country and also successful and it can actually lose its muscle power to be able to have its way, he said. “Before we could only be at the receiving end. Now it’s not so,” he noted.

“Like what do we do if we are dependent on the United States and the United States acts protectionist? Those kinds of questions are arising now. So, we have to think through what is that we want,” he said.

“If countries are resorting to availability problem,” he said, speaking on the sidelines of the International Solar Alliance (ISA) curtain raiser event.

“We are working with the state government to address the land availability problem,” he said, speaking on the sidelines of the International Solar Alliance (ISA) curtain raiser event.

“India has a big country and also successful and it can actually lose its muscle power to be able to have its way, he said. “Before we could only be at the receiving end. Now it’s not so,” he noted.

Central Employees MSP Raised for Seven Rabi Crops, Mustard Big Gainer

Impact on exchequer: ₹9,448 cr pa

Our Bureau

New Delhi: The Union Cabinet approved an additional instalment of Dearness Allowance (DA) to Central government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners Wednesday. This 3% increase will be applicable from July 1, 2024, and will be in addition to the existing rate of 50% of Basic Pay or Pension. This revision will compensate against price rise, an official statement said.

“This revision is based on the rise in 12-monthly average of All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICIPIW), Union Railways, Information Broadcasting, and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw told journalists after the cabinet meeting.

In addition to this, the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) approved untracking the Varanasi-Pt. Deen Dayal Upadhyaya (DDU) railway route. This includes a new Rail-cum-Road Bridge across the Ganga River. The total estimated cost of the project is pegged at Rs 2,642 crore and will be completed in four years.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

A combined impact on the exchequer on account of both DA and DR will be Rs 9,448.35 crore per annum. This will benefit about 49.18 lakh central government employees and 64.89 lakh pensioners, the statement said.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

“This increased MSP of rabi crops will ensure remunerative prices to the farmers and incentivise crop diversification,” the government said in a statement.

“This bridge is an integral part of the Indian Railways network and will be developed by inhouse capabilities of the national transporter,” Vaishnaw added.

‘Tough Task Coaxing Industry to Ensure Quality’

Our Bureau

New Delhi: Commerce and industry minister Piyush Goyal Wednesday said the government is putting its effort to nudge industry to get into the manufacturing of high quality products as it is a “tough” task to get industry to accept that they should be making quality goods.

“If we are looking at self-reliant India, it can only happen when India will be self-confident and that confidence will only come when we all decide that quality is not our job, it is our duty,” he said, and added that if the Indian industry is not competitive in any product, that can be imported but the industry has to work towards competitiveness where it has a comparative advantage with other nations.

“We still have a lot of work to do in terms of getting industry aligned with these COCs,” he said, adding India was not able to become a partner of a protocol in the pharma sector as “every single time when we try to join that protocol, we get a lot of conditions and all sorts of difficulties attached to it, there will be opposition from those (industries) who would be looking at short cuts.”

Goyal insisted that manufacturing high quality goods boost economic activities, generating jobs and increasing exports.

“We are working with the state government to address the land availability problem,” he said, speaking on the sidelines of the International Solar Alliance (ISA) curtain raiser event.

Working with States to Ensure Land for Solar Projects: Joshi

Our Bureau

New Delhi: The Centre is working with states to ensure availability of land for solar projects, Minister of New and Renewable Energy (MoRE) Pralhad Joshi, said Wednesday.

“India has a big country and also successful and it can actually lose its muscle power to be able to have its way, he said. “Before we could only be at the receiving end. Now it’s not so,” he noted.

“If we are looking at self-reliant India, it can only happen when India will be self-confident and that confidence will only come when we all decide that quality is not our job, it is our duty,” he said, and added that if the Indian industry is not competitive in any product, that can be imported but the industry has to work towards competitiveness where it has a comparative advantage with other nations.

“We still have a lot of work to do in terms of getting industry aligned with these COCs,” he said, adding India was not able to become a partner of a protocol in the pharma sector as “every single time when we try to join that protocol, we get a lot of conditions and all sorts of difficulties attached to it, there will be opposition from those (industries) who would be looking at short cuts.”

Goyal insisted that manufacturing high quality goods boost economic activities, generating jobs and increasing exports.

“We are working with the state government to address the land availability problem,” he said, speaking on the sidelines of the International Solar Alliance (ISA) curtain raiser event.

“India has a big country and also successful and it can actually lose its muscle power to be able to have its way, he said. “Before we could only be at the receiving end. Now it’s not so,” he noted.

“India has a big country and also successful and it can actually lose its muscle power to be able to have its way, he said. “Before we could only be at the receiving end. Now it’s not so,” he noted.

“India has a big country and also successful and it can actually lose its muscle power to be able to have its way, he said. “Before we could only be at the receiving end. Now it’s not so,” he noted.

Rules Soon for Production, Transportation of Methanol

Framework to be based on global standards: Niti

Our Bureau

New Delhi: India will soon firm up a regulatory framework to aid production, transportation and storage of methanol in a bid to enhance production of alternative fuels.

“We are developing a regulatory ecosystem for methanol production and usage based on the global standards,” NITI Aayog member VK Saraswat said Wednesday.

“The move is aimed at helping India reduce dependence on fossil fuels, save on costs and substantially reduce emissions as the country targets to be Net Zero by 2070.

According to Saraswat, it will be followed by a comprehensive policy for the sector to include setting up of large-scale methanol plants in the country.

“The government is in talks with the public as well as private sector to set up methanol production units from coal and bamboo,” Saraswat said, adding that the government hopes to put in place a couple of coal-based methanol plants over next five-seven years.

Inani Marbles & Industries Limited

Notice

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company for the quarter and half year ended on 30th September, 2024. The notice is also available on the Company’s website at www.inanimarbles.com and on the website of the Stock Exchange at www.sebiindia.com



“The government is in talks with the public as well as private sector to set up methanol production units from coal and bamboo,” Saraswat said, adding that the government hopes to put in place a couple of coal-based methanol plants over next five-seven years.

“The move is aimed at helping India reduce dependence on fossil fuels, save on costs and substantially reduce emissions as the country targets to be Net Zero by 2070.

According to Saraswat, it will be followed by a comprehensive policy for the sector to include setting up of large-scale methanol plants in the country.

“The government is in talks with the public as well as private sector to set up methanol production units from coal and bamboo,” Saraswat said, adding that the government hopes to put in place a couple of coal-based methanol plants over next five-seven years.

“The move is aimed at helping India reduce dependence on fossil fuels, save on costs and substantially reduce emissions as the country targets to be Net Zero by 2070.

“The government is in talks with the public as well as private sector to set up methanol production units from coal and bamboo,” Saraswat said, adding that the government hopes to put in place a couple of coal-based methanol plants over next five-seven years.

“The move is aimed at helping India reduce dependence on fossil fuels, save on costs and substantially reduce emissions as the country targets to be Net Zero by 2070.

जननायक

रावदड़ा में रात्रि चौपाल आज
जननायक चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर आलोक रंजन की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर गुरुवार को पंचायत समिति बेगूं के रावदड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्रि चौपाल आयोजित की जाएगी। प्रभारी अधिकारी (निरीक्षण) अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि रात्रि चौपाल में आमजन की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

जिला स्तरीय जनसुनवाई आज
जननायक चित्तौड़गढ़। जिला मुख्यालय पर गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं जन अभियोग व सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया जायेगा। अतिरिक्त जिला कलक्टर (भूअ) रामचंद्र खट्टी ने बताया कि जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं जन अभियोग व सतर्कता समिति की बैठक 17 अक्टूबर प्रातः 11 से दोपहर 2 बजे तक जन सुनवाई केन्द्र जिला कलक्टर कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

किसानों को प्राकृतिक खेती पर जागरूकता प्रशिक्षण



जननायक चित्तौड़गढ़। कृषि विज्ञान केन्द्र में जनजाति किसानों को प्राकृतिक खेती पर जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं केन्द्र अध्यक्ष डॉ. रतनलाल सोलंकी ने प्राकृतिक खेती के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती में उपयोग की जाने वाली जैविक कार्बनिक खादों जैसे कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, वर्मी वाश, डी कम्पोज, बीजामृत, जीवामृत एवं पंचगव्य आदि के उपयोग पर चर्चा की गई। इसके अलावा केंविके की प्रदर्शन इकाई वर्मी कम्पोस्ट इकाई

ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का सीडीडओ ने किया निरीक्षण आत्मरक्षा प्रशिक्षण से बालिकाओं में आएगा आत्म विश्वासः दशोरा

जननायक चित्तौड़गढ़। स्थानीय शहीद मेजर नटवर सिंह शकावत राउमावि में आयोजित ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का बुधवार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार दशोरा ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्लॉक स्तरीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में चित्तौड़गढ़ ब्लॉक के 172 राजकीय उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों से शिक्षिकाएं भाग ले रही हैं। इस सात दिवसीय प्रशिक्षण के बाद यह अपने-अपने विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 में अर्धनरत चयनित बालिकाओं के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन करेंगी। इसके पश्चात तीन माह तक 15-15 दिवस के आत्मरक्षा प्रशिक्षण विद्यालयों में आयोजित की जाएगी।



ही अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण तकनीक के साथ-साथ बाल अधिकार संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी बालिकाओं को दी जाएगी। इस दौरान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी शिक्षिकाओं को गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं दिए गए निर्देशों के अनुसार

प्रशिक्षण में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शंभू लाल सोमानी ने कहा कि विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 एवं 9 से 12 की बालिकाओं के प्रशिक्षण हेतु पृथक पृथक समूह बनाकर प्रशिक्षण दिया जाए, बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीक पर नियमित अभ्यास के पूरे अवसर

मिले और प्रशिक्षक/पीईटी की देखरेख में हो, इसकी जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। विद्यालयों में तीन माह में कुल 45 दिन 30 मिनट का अभ्यास बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी ओम प्रकाश पालीवाल ने प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि विद्यालयों में होने वाले प्रशिक्षकों का व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड मेंटन करना है व प्रशिक्षण प्राप्त कर रही बालिकाओं की सूची तथा प्रशिक्षण के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों का लिखित रिकॉर्ड तैयार कर प्रतिवेदन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करना है। इस सात दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ 14 अक्टूबर को उपखंड अधिकारी बीजू देवल की अध्यक्षता में हुआ।

स्वर्णकार समाज ने मनाई महाराजा अजमीढ़ जयंती



जननायक चित्तौड़गढ़। मेहु क्षत्रीय स्वर्णकार समाज के आराध्य देव अजमीढ़ महाराज की जयंती एवं शरद पूर्णिमा उत्सव समाज नोहरे में मनाया गया। मेहु क्षत्रीय स्वर्णकार समाज के महामंत्री बनवारी लाल मलेण्डिया ने बताया कि स्वर्णकार समाज के आदि पुख्त अजमीढ़ महाराज का पर्व हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लालमठ के पास स्थित स्वर्णकार समाज नोहरे में अजमीढ़ महाराज की महाआरती कर हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। योजना मंत्री सूर्यप्रकाश ने बताया कि कार्यक्रम के प्रारंभ में

गायों को हरा चारा खिलाया गया। इस मौके पर अजमीढ़ सर्फिल पर पुष्प सज्जा की गई। महिला मण्डल द्वारा चारभुजा नाथ के समक्ष गरबा रास के कार्यक्रम की प्रस्तुती दी गयी। इस दौरान अध्यक्ष प्रहलाद कडेल ने समाज में व्याप्त कुकुतिया, मृत्युभोजन में लेण प्रथा, कपड़ों का लेनदेन तथा बाल विवाह आदि नहीं करने का आह्वान किया। महामंत्री बनवारी लाल मलेण्डिया ने समाज के नोहरे में निर्माण एवं आय-व्यय का ब्यौरा देते हुए नवीन निर्माण करने के लिए चर्चा की गई। इसी कार्यक्रम के तहत समाज की महिला शक्ति द्वारा



सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए एवं महिला मण्डल ने समाज की वरिष्ठ महिलाओं का माल्यापर्ण कर स्वागत किया। मेहु क्षत्रीय स्वर्णकार समाजिक सेवा संस्थान के सम्भागा संरक्षक सत्यनारायण ददोलिया एवं सभागा महामंत्री राजाराम रूणवाल ने बताया कि आने वाले 12 नवम्बर को मंगलवाड़ी में सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जायेगा। बेगूं नगर में स्वर्णकार समाज द्वारा महाराजा अजमीढ़ जयंती पर निकाले गये जुलूस का जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महाराजा अजमीढ़ जयंती का

जुलूस नगर के खारी बावड़ी पर स्थित स्वर्णकार समाज के मंदिर से शुरू होकर केसरिया चौक, सराफा बाजार, लक्ष्मीनाथ मंदिर, गांधी चौक, सिलेरियों की बावड़ी, दामाजी की हवेली, भड्डे का मोहल्ला, सेन समाज के मंदिर, आंचलियों का मोहल्ला, नौशालियों का मोहल्ला, लालबाई फूलवाड़ी चौक, सरर बाजार होते हुए स्वर्णकार समाज के मंदिर पर पहुंचकर समाज में गोपाल सोनी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूजा सोनी, आशा, शीतल सोनी, रेणु सोनी, राकेश सोन स्वर्णकार समाज के कई व्यक्ति मौजूद रहे।

विधायक कृपालानी बने भाजपा के सक्रिय सदस्य

जननायक चित्तौड़गढ़। भारतीय जनता पार्टी के देश भर में चलाए जा रहे वृहद सदस्यता अभियान के अंतर्गत बुधवार को पूर्व यूडीएच मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपालानी ने भाजपा की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। विधायक कृपालानी ने सदस्यता अभियान-2024 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा (170) के भाजपा ग्रामीण मण्डल (पूर्व) निम्बाहेड़ा के गांव भावलिया के बृथ संख्या 34 पर निर्धारित माहकू डोनेशन राशि जमा करा कर सदस्यता



ग्रहण की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे ग्लो है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का फिर से सक्रिय सदस्य बना हूँ।

अंतर महाविद्यालय छात्रा फुटबॉल स्पर्धा में निम्बाहेड़ा विजेता

जननायक निम्बाहेड़ा। डॉ. भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की मेजबानी में आयोजित की जा रही चार दिवसीय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय छात्रा-छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता में छात्रा वर्ग का फाइनल मैच बुधवार को राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा एवं आर्ट्स कॉलेज उदयपुर के मध्य खेला गया, जिसमें निम्बाहेड़ा की टीम 1-0 से विजय रही। छात्रा वर्ग में राजकीय महाविद्यालय निम्बाहेड़ा टीम की कप्तान निक्किता अहीर को ग्रेन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। इस अवसर पर बुधवार को आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व जिला महामंत्री ललित प्रकाश शारदा



एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा नगर महामंत्री वीरेख चपलते, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी अरविंद मुंडड़ा, भाजपा नगर उपाध्यक्ष विजय कबरा मंचालीन रहे। समारोह के आरम्भ में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आशुतोष व्यास ने आभार अतिथियों का उपजा एवं मेवाड़ी फाड़ी पहना कर स्वागत किया। अतिथियों द्वारा

छात्रा वर्ग की विजेता एवं उपविजेता टीमों को मेडल व ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। सभी मैचों में शारीरिक शिक्षक सोहनलाल मेघवाल, राधेश्याम तेली, सूरज मीणा, नरेश कुमार सीयाल ने निर्णायक की भूमिका निभाई। अंत में खेल प्रभारी डॉ. श्रीराम शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के स्टाफ भगवान राई, डॉ. अशोक मूलवानी, सीमा विजयवर्गीया, डॉ. शिल्पा नागोरी, डॉ. नीलम सेठी, उदयप्रकाश अहीर, डॉ. नवेद मोहम्मद, अनिल कुमार शर्मा, डॉ. सचिन कुमार सातवा, दुष्यन्त डीवालिया, हरपूजन मीणा, पुष्कर, रुक्मिणी जैनी एवं प्रकाश शर्मा उपस्थित रहे। मंच संभालने राकेश कुमार खटीक एवं डॉ. सचिन कुमार सातवा ने किया।

सारणेश्वर महादेव मंदिर में मजन संध्या आयोजित



जननायक गंगरार। श्री सारणेश्वर महादेव मंदिर में मासिक प्रदोष पर्व पर श्रद्धालु नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। प्रदोष जागरण समिति के तत्वाधान में आयोजित भजन संध्या की शुरुआत रामपाल नोय्या द्वारा गणपति वंदना कर की गई। तत्पश्चात भजन गायक हस्तीमल सुराणा, प्रह्लाद राय बरियार, पूरण दास वैष्णव, गणपत सरेकु, दीपक गंधर्व, रतन टेकर, इंदरमल नोय्या, जीतमल सरेकु, रिद्धि शंकर, गणेश सुथार, कन्हैयालाल धोबी ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। भजन

संध्या में टुट्ट अध्येक्ष सुरेश शर्मा, संपत गिरी, रवि पुरोहित, धर्म नारायण शर्मा, डॉ. विष्णु व्यास, नारायण लाल सुथार, भंवरलाल गाडरी, भगवान लाल सालवी, सागरमल सोनी गणेश नोय्या, शिवलाल सुथार, श्याम लाल सुथार, छोट्ट माली, सुनील बरियार, मुकेश शर्मा, दिलीप पंचोली, मांगीलाल माली, राजू पटवा आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रबंध कारणी समिति द्वारा भजन गायकों का ऊपरणा ओढ़ा कर अभिनंदन किया। रात्रि 12 बजे भगवान सारणेश्वर महादेव की माहाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया।

रूद में खेलकूद प्रतियोगिताएं आज से

जननायक राशमी। क्षेत्र के रूद गांव में दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोरानगर में गुरुवार से आरंभ होगी। मेजबान विद्यालय के प्रधानाध्यक्ष अमर सिंह राणावत ने बताया कि प्रतियोगिता में राशमी ब्लॉक के 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों के लिए कबड्डी, खो-खो, जिम्नार्स्टिक एवं एथेलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता स्थल पर ही प्रथम दिवस गुरुवार रात्रि कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें सिद्धार्थ देवल, अमनोज गुर्जर, कानु पंडित, रणजीत सिंह राणा, दीपशिखा रावल, दिनेश व्यास काव्य पाठ करेंगे।

रोशनेश्वर महादेव के मेले में हिरण्यकश्यप का दहन आज

जननायक राशमी। कस्बे में बनारस नदी तट स्थित रोशनेश्वर महादेव प्रांगण में शरद पूर्णिमा के अवसर पर दो दिवसीय मेले का बुधवार प्रातः 11 बजे विधायक अर्जुन लाल जीनगर के मुख्य अतिथ्य एवं विष्णु समाज सराय अध्यक्ष सुरेशचंद्र सुवालका की अध्यक्षता में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पंडित शंकर लाल जोशी ने रोशनेश्वर महादेव का विधि विधान से पूजन करवाया। इसके बाद सरपंच बंशीलाल रेगर, वार्ड पंच दिनेश सेन, एडवोकेट शम्भूलाल आचार्य, शंकर जीनगर, बाबू अध्येक्ष सत्यनारायण आचार्य, अनिल पोखरना, भीमसिंह कितावत, सुरेश शर्मा, किशन व्यास, रमेश कोर, गोविन्द सेन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ग्राम विकास अधिकारी जुगुराज मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत के



तत्वाधान में आयोजित हो रहे मेले में गुरुवार रात्रि स्वयं को भगवान मानने वाले दंभी हिरण्यकश्यप का पुतला जलाया जाएगा। रात्रि में म्यूजिकल युग के कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। इस अवसर पर मेले के दौरान हूँ विविध प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। मेलास्थल के मनोरंजन के लिए मेले में खेल, चकरी झूला भी लगाए गए।

अंतिम पंक्ति के बच्चों को अग्रिम पंक्ति में मौका मिले: राणावत

ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न

जननायक गंगरार। ब्लॉक के तुम्बाडिया पीईईओ के अधिनस्थ राजकीय प्राथमिक विद्यालय चतरा का खेड़ा में आयोजित 68 वीं प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता बुधवार को प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणावत के मुख्य अतिथ्य, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परमेश्वर जाट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राणावत ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में अंतिम पंक्ति से अग्रिम पंक्ति तक के बच्चों को मौका मिलना चाहिए, ये जिम्मेदारी सभी शिक्षक साथियों की है। स्थानीय पीईईओ व संयोजक सौहार्द लाल चौधरी एवं विद्यालय के संस्था प्रधान रामगोपाल शर्मा ने आभार व्यक्त कर स्वागत किया। अध्यापक सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि दो दिवसीय प्रतियोगिता में ओवर



ऑल जनरल चैम्पियनशिप राष्ट्रीय चंदनपुरा रही, कबड्डी छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माताजी का खेड़ा कि विद्यालय स्थान पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिन्यास, खो-खो में प्रथम स्थान पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करतियास, द्वितीय स्थान पर भाटखेड़ा, जिम्नार्स्टिक में प्रथम पुठौली व द्वितीय करतियास,

लंबी कूद में प्रथम सिंघोला, द्वितीय सांडिया, 50 मीटर में प्रथम भटवाड़ा व द्वितीय चंदनपुरा, 100 मीटर में प्रथम भटवाड़ा, द्वितीय चंदनपुरा, रिले दौड़ में प्रथम चंदनपुरा व द्वितीय माताजी के प्रेसिडेंट, खो-खो में प्रथम धोली व द्वितीय दारिया, जिम्नार्स्टिक

में प्रथम पुठौली व द्वितीय चंदनपुरा, लंबी कूद में प्रथम सिंघोला व द्वितीय चंदनपुरा, 50 मीटर में प्रथम सुरजनिगा व द्वितीय चंदनपुरा, 100 मीटर में प्रथम दूधा का खेड़ा व द्वितीय भाटखेड़ा, रिले दौड़ में प्रथम चंदनपुरा व द्वितीय स्थान पर धोली की टीमों रही। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के लिए पारितोषिक की व्यवस्था तुम्बाडिया सरपंच लीला देवी धाकड़ की ओर से की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में भंवरलाल जाट सरपंच प्रतिनिधि कुवालिया, रमेश चंद्र रेगर सरपंच प्रतिनिधि साडास, रतनलाल धाकड़ सरपंच प्रतिनिधि तुम्बाडिया, अनिल शर्मा, समाजसेवी रतनलाल धाकड़, कोषाध्यक्ष जगदीश गुर्जर रहे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में शारीरिक शिक्षक राधेश्याम खटीक, गोपाल लाल शर्मा व सुरेश चंद्र शर्मा ने मुख्य निर्णायक की भूमिका निभाई।

हैंडबॉल में आरएनटी की टीम ने मारी बाजी



जननायक कपासन। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की अन्तर महाविद्यालयी हैंडबॉल (पुरुष) प्रतियोगिता 2024 का आयोजन एमपीपीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़ के खेल मैदान पर हुआ, जिसमें आरएनटी कॉलेज कपासन ने राजकीय महाविद्यालय घोमुखा को फाइनल मैच में पॉन्ट से हराते हुए हैंडबॉल ट्रॉफी

पर कब्जा किया। महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. एसएनए जाफरी ने बताया कि 10 से 11 अक्टूबर तक आयोजित दो दिवसीय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की अन्तर् महाविद्यालयी हैंडबॉल (पुरुष) प्रतियोगिता 2024 के समापन समारोह में विजेता टीमों के खिलाड़ियों को मेडल व ट्रॉफी प्रदान की गई।

दशहरा मेले में आयोजित भजन संध्या में जमकर थिरके श्रद्धालु



जननायक कपासन। नगर पालिका के पांच दिवसीय दशहरा मेले में मंगलवार रात्रि छोट्ट सिंह रावणा की भजन संध्या आयोजित की गई, जिसमें श्रीराम, खाट्ट श्याम और सांवलिया सेठ के भजनों पर श्रद्धालुओं के साथ विधायक अर्जुन लाल जीनगर भी जमकर नाचे। इस मौके पर भजन गायक छोट्ट सिंह रावणा ने खाट्ट श्याम को समर्पित कई भजनों की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। पं. दीनदयाल उपाध्याय स्टैडियम में आयोजित इस भजन संध्या में मेरे घर राम आयेगे और मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्रीराम बोलेगा, भजन में श्रोता झूम उठे और जय श्रीराम के नारे

लगाने लगे। विधायक अर्जुन लाल जीनगर समेत कई जनप्रतिनिधि भी स्टेज पर पहुंचकर नाचने लगे और नोटों की बरसात कर दी। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मंजू देवी सोनी, डीएसपी हरजीलाल यादव, पूर्व जिला प्रमुख सुशीला जीनगर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पंकज सिरौरा समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। दशहरे मेले में विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस दौरान नगर पालिका कार्मिकों एवं पत्रकारों की दौड़ का भी आयोजन किया गया। पत्रकारों की दौड़ प्रतियोगिता में सत्य प्रकाश व्यास प्रथम एवं अंकित वैष्णव द्वितीय स्थान पर रहे।

पश्चिम मध्य रेल
आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु अधिसूचना संख्या: सी-560/102/STBA/2024-25 दिनांक: 15.10.2024
भारत संच के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिए वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, (प.म.रे.) कोटा द्वारा निम्न कार्य हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन अधिसूचना सं. सी- 560/102/STBA/16/2024, कार्य का नाम अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए कोटा मण्डल के 20 स्टेशनों पर 03 वर्ष की अवधि के लिए स्टेशन एसटीबीए की नियुक्ति हेतु। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय: 13.11.2024 को 17.00 बजे तक, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 14.11.2024 को 13.00 बजे तक, आवेदन पत्र खुलने की तिथि एवं समय: 14.11.2024 को 16.00 बजे तक। आवेदन पत्र एवं विस्तृत नियम व शर्तों को वेबसाइट www.indianrailways.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा इस कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, प.म.रे. कोटा
रखक भारत अधिनियम एक कदम सचचता की ओर

कार्यालय नगर पालिका, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
क्रमांक: नगरा/2024-25/726 दिनांक: 14.10.2024
:-: निविदा निरस्ती सूचना :-:
समस्त संवेदकों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका रावतभाटा द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या-05/2024-25 क्रमांक 635 दिनांक 01.10.2024 को अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है। सूचित रहे।
अध्यक्ष
नगर पालिका, रावतभाटा
राज.सं.सं.वार/सी/24/6629
अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका, रावतभाटा

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER Water Resources Navnera Project Dn. I Kota
S.No.: EEW/RKOTA/NIT/2024-25/1238-53 Date: 07.10.2024
E-NIB No. 02/2024-25)
Bid for 04 No. Civil work is invited from interested bidders from 10.10.2024 (9.30 Hr.) to 20.10.2024 till 18.00 Hr. Other particulars, terms & conditions may be seen on the procurement portal. <https://eproc.rajjasthan.gov.in>, <https://sppp.rajjasthan.gov.in>, www.dipr.rajjasthan.gov.in and www.water.rajjasthan.gov.in.
UBN No. (1) WRD2425WSOB00849 Executive Engineer Water Resources Navnera Project Dn.-I, Kota
(2) WRD2425WSOB00850 (3) WRD2425WSOB00851
(4) WRD2425WSOB00852 DIPRC/2024/9912

कार्यालय उपवन संरक्षक, झालावाड़
Email ID: defhalwar 1967@gmail.com
क्रमांक: एन/ स्टेर/खण्ड/2024-25/15630 दिनांक: 08.10.2024 Phone: 07432-232230
ई-निविदा सूचना संख्या 22/2024-25
इस कार्यालय के अधीन रेड जंग में ऑफिस बिल्डिंग निर्माण कार्य (अनुमानित लागत 11.95740 लाख) संपादित करने हेतु राजकीय निर्माण विभागों में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से दि. 21.10.2024 को सांय 6 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा एवं सविदा की शर्तें तथा विवरण कार्यालय समय में इस कार्यालय में एवं eproc.rajjasthan.gov.in & sppp.rajjasthan.gov.in साइट पर देखी जा सकती है।
UBN No. FOR2425WSOB01156 - सागर पंवार, IFS
NIB No. FOR2024A0906 DIPRC/2024/9802 उपवन संरक्षक, झालावाड़

कार्यालय नगर परिषद बार्द (उपन.)
स्टेशन रोड, बार्द (उपन.), nagarpalika@barnard@gmail.com, Phone: 07453-230106
क्रमांक: नगरा/निग/2024/7451-53 दिनांक: 15/10/2024
ई-टेंडर सूचना संख्या : निगानु 32/2024-25
नगर परिषद बार्द द्वारा राजस्थान सरकार के अधिष्ठात्रीक विभागों में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों अथवा पीडब्ल्यूएफएआर कृपा के अन्तर्गत पात्र संवेदकों से नगरी टारिफिंग स्टाफ (एम. टी.एस.) चयनक करवाने के कार्य के लिये निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदा प्रपत्र व विवरण पोर्टल www.sppp.rajjasthan.gov.in पर <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर देखें। कार्य की लागत 15.00 लाख रुपये है तथा UBN No. DLB2425WSOB10601 है।
आवृत्त
नगर परिषद बार्द

कार्यालय अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, रखक रामगंजमण्डी (जिला कोटा)
क्रमांक- 552 दिनांक- 09.10.2024
निविदा सूचना संख्या 07 / 2024 2025
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सड़क/भवन कार्यों के, उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं नगर सरकार / केंद्र सरकार के अधिकृत संवेदकों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/ डाक एवम् दूर संचार विभाग / रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के 'ए' 'ए' 'ए' 'सी' एवं 'डी' श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदा निम्न कार्यों की आमंत्रित की जाती है।
निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाइट 'www.diprline.org', 'www.eproc.rajjasthan.gov.in' तथा 'www.pwd.rajjasthan.gov.in' पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाइट 'www.eproc.rajjasthan.gov.in' पर रजिस्टर करवाना आवश्यक है।
1- PWD2425WSOB07509, 2- PWD2425WSOB07510
3- PWD2425WSOB07511, 4- PWD2425WSOB07512
5- PWD2425WSOB07513
DIPRC/9812/2024 (आर.के. मीणा) अधिशायी अभियन्ता स.नि.वि. खण्ड रामगंजमण्डी

ईनाणी मार्बलस एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
CIN : L14101RJ1994PLC008930
पंजीकृत कार्यालय: आराजी न.1312, उदयपुर-मीलवाड़ा हाइवे, माताजी की पाण्डोली के पास, चित्तौड़गढ़ (राज.), 312001
E-mail: inanimarbles@gmail.com
सूचना
सेबी (लिटरेचर) दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली 2015 की नियमावली 29 एवं 47 के अनुपालन में एचए द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी को निदेशक मंडल की बैठक 25 अक्टूबर, 2024 शुक्रवार को 3.00 p.m. कंपनी के पंजीकृत कार्यालय आराजी न. 1312, उदयपुर-मीलवाड़ा हाइवे, माताजी की पाण्डोली के पास, चित्तौड़गढ़ (राज.), 312001 में 30 सितंबर, 2024 को संपन्न तिमाही एवं छह माह के अर्ध-अंकेषित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु आयोजित की जाएगी। निवेशक कंपनी की वेब-साइट www.inanimarbles.com एवं www.bseindia.com पर मंडल की बैठक का विवरण देख सकते हैं।
मंडल के आवेदानुसार
बारसे: ईनाणी मार्बलस एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
Sd/-
स्थान चित्तौड़गढ़ दिनांक: 16.10.2024
मधु बाला शर्मा (कम्पनी सचिव)